



# जलीय जैवविविधता के पहल

केंद्रीय समुद्री मात्रिकी अनुसंधान संस्थान  
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)  
कोचीन - 682 018



## केरल के पश्चिम घाटों की अलंकार मछली विविधता- वर्तमान स्तर और भविष्य की प्रत्याशाएं

टी.वी. अन्ना मेर्सी

मात्रियकी कालेज, पनंगाड, केरल

भारत के पश्चिम घाटों और उत्तर पूर्वी पहाड़ों के मीठा पानी मछलियों की विविधता की समृद्धि से अनुग्रहीत है। पश्चिम घाट उत्तर की तस्ती नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 कि.मी की दूरी तक फैला गया है। यह पश्चिम तट के समांतर और करीब 40 कि.मी की दूरी पर स्थित है। पालक्काड के कुछ खाली जगह को छोड़कर यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडू और केरल राज्यों को पार कारनेवाले पहाड़ों की एक श्रेणी के रूप में स्थित है।

पश्चिम घाट विश्व के 25 जैवविविधता तपतस्थलों में एक है, जहाँ भारत के कुल जीवजातों के 30% रहते हैं। इसमें रेंगने वाले जीव, उभय जीव और मछलियाँ सम्मिलित हैं। कुल 296 मीठा पानी मछली जातियों में 198 सिर्फ पश्चिम घाट में पायी जाती है। लेकिन अब इस समृद्ध जैवविविधता का सबसे छोटा भाग अलंकार मछलियों के रूप में उपयुक्त किया जाता है। पश्चिम घाट की कुल 296 मछली जातियों में 155 मछली जातियाँ अलंकारिक उद्देश्य के लिए अनुयोज्य हैं। लेकिन अलंकार मछलियों के रूप में इन समृद्ध संपदाओं की अनुयोज्यता के बारे में अब तक अध्ययन नहीं चलाया गया है। वर्तमान लेख में पश्चिम घाट की अलंकार मछलियों की पहचान और अलंकार मछलियों के रूप में इनमें वांछित गुणताओं पर अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

### सामग्रियाँ और तरीका

वर्तमान अध्ययन के लिए केरल की विभिन्न नदियों से कास्ट नेट, स्कूप नेट, ड्राग नेट और हस्त जाल जैसे विभिन्न संभारों को उपयुक्त करके मछलियों का संग्रहण किया गया। वहाँ से ऑक्सिजन भरे पोलिथीन थैलियों में उन्हें अध्ययन स्थान तक परिवहन किया गया। पर्याप्त वातन होनेवाले कांच या सिमेन्ट के टैंकों में क्रमिक रूप से मछलियों का अनुकूलन

होता है। प्रग्रहण स्थिति में उनके स्वभाव, समरसता, खाद्य और अशन की रीतियों पर परिवेक्षण किया जाता है।

## परिणाम और चर्चा

### संग्रहित अलंकार मछलियों की जैवविविधता का स्तर

वर्तमान अध्ययन में केरल की विभिन्न नदी व्यवस्थाओं से संग्रहित 83 मछली जातियों को 7 क्रमों, 21 कुटुम्बों और 49 वंशों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। इन मछली जातियों के नाम उनके आइयू सी एन मान के साथ सारणी-1 में दिए गए हैं। इन 83 जातियों में तीन निश्चित रूप से खतरे में पड़ गई, 23 खतरे में पड़ गई और 13 जातियों को सुभेद्य ग्रूप के अंदर माना जाता है। कुछ मछली जातियाँ धमकी से मुक्त हैं, जिनमें 9 कम जोखिम और धमकी के निकट हैं बल्कि छः जातियाँ कम जोखिम और कम प्रधानता की मछलियाँ हैं।

### केरल की अलंकार मछलियों की विविधता

संग्रहित की गई कुल 83 मछली जातियों में 43 केवल पश्चिम घाट की हैं। इनमें प्लॉटियस डेनिसोनी, ओस्टियोब्रामा बकरी, नियोलिस्सोचीलस वयनाडेन्सिस, गारा मेनोनी, गारा सुरेन्द्रानातानी, होराडान्डिया अटटुकोराली, नेमाचीलस कारालेन्सिस, टेट्राडॉन ट्रावन्कोरिक्स, माइक्रोफिस कान्कालस आदि जातियाँ सिर्फ़ केरल की विशेषताएं दिखाती हैं। भौगोलिक वितरण की निश्चितता इनमें अधिकांश मछलियों की विशेषता है। जैवविविधता का स्तर निर्धारित करने पर देखा जाता है कि तीन मछली जातियाँ निश्चित रूप से खतरे में पड़ गयी हैं बल्कि 20 जातियाँ खतरे में पड़ गयी हैं (सारणी-2). डयेल्ला मलबारिका, नियोलिसोचीलस वयनाडेन्सिस और होराबाग्रस निग्रिकोल्लारिस निश्चित रूप से खतरे में पड़ गयी और प्लॉटियस डेनिसोनी, गारा सुरेन्द्रानातानी, प्लॉटियस ऑरुलियस आदि खतरे में पड़ गयी हैं। अब कई विशेष प्रकार की मछलियों को वाणिज्यिक उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से पकड़ा जाता है, फलतः ये खतरे में पड़ गयी हैं। मात्रियकी कालेज में प्राथमिकता की दस मछली जातियों की प्रग्रहण प्रजनन प्रौद्योगिकी विकसित की है जो इस क्षेत्र में प्राप्त उल्लेखनीय उपलब्धि है।

### प्रग्रहण प्रजनन प्रौद्योगिकी विकसित मछली जातियाँ

1. प्लॉटियस मालानाम्पिक्स
2. प्लॉटियस मेलनोस्टिग्मा
3. प्लॉटियस सराना सबनासूटस
4. प्लॉटियस फिलमेन्टोसस
5. चेला फासिएटा
6. डोनियो मलबारिक्स
7. गारा मुलिया
8. नेमाचीलस ट्रयांगुलारिस
9. षिस्टुरा सेमियारमाटस
10. प्रिस्टोलेपिस मार्जिनेटा

### केरल की मीठा पानी मछलियों की जैवविविधता की धमकियाँ

केरल की मीठा पानी मछलियाँ कई कारणों से धमकी में पड़ गई हैं और प्रतिकूल तथा अविवेकपूर्ण मत्स्यन रीतियाँ इनमें सबसे प्रमुख हैं। केरल में आलंकारिक मछली विपणन के लिए बहुत कम मछली जातियों को उपयुक्त किया जाता है फिर भी अधिकांश मीठा पानी मछलियाँ गलत मत्स्यन रीति की वजह से खतरे में पड़ गई हैं। डयनमिट जलाना, जहर देना आदि मत्स्यन रीतियाँ नीति विरुद्ध होने के साथ साथ मछलियों के आवास का नाश करती हैं। केरल में प्रचलित विनाशकारी मत्स्यन रीतियों का विवरण नीचे दिया जाता है।

1. अति विदोहन
2. विपणन
3. प्रदूषण
4. विष लगाना
5. पीड़कनाशी
6. मत्स्यन
7. विनाशकारी मत्स्यन

8. शिकार

9. अन्य रीतियाँ

**प्रबंधन उपाय**

1. संपदाओं की टिकाऊ उपलब्धता के लिए निर्यात और विपणन के लिए किए जाने वाले अविवेकपूर्ण मत्स्यन नियंत्रित करना है।

2. मांग के अनुसार मछली जातियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मात्रियकी कालेज, पनंगाड में विकसित प्रग्रहण प्रजनन

प्रौद्योगिकी उपयुक्त की जानी है।

3. अधिक प्रमुखता की विशेष स्थानिक अलंकार मछलियों के उत्पादन केलिए प्रग्रहण प्रजनन प्रौद्योगिकी विकसित की जानी है।

4. अन्य देशज मछलियों को विपणनार्थ बाज़ार में पहुँचाने से पहले उनकी वांछित गुणताओं पर अध्ययन किया जाना है।

5. मछली आवासों तथा लक्षित नहीं की गई मछलियों का नाश करनेवाली अनैतिक मत्स्यन रीतियों को रोकना आवश्यक है।

**सारणी : 1 प्रग्रहण अध्ययन के लिए प्रकृति से संग्रहित मछलियों की सूची****Table 1. List for fishes collected from the wild for captive studies.**

क्र.सं. Sl.No.	क्रम/Order Family	जाति/Species	परिरक्षण का स्तर/ Conservation status	स्थानिकता/ Endemism	
1.	ओस्टियोग्लोसिफोर्म्स Osteoglossiformes	नोटोप्टेरिडे Notopteridae	नोटोप्टेरस नोटोप्टेरस <i>Notopterus notopterus</i>	LRnt	
2.	एनिवल्लिफोर्म्स Anguilliformes	एनिवल्लिडे Anguillidae	एनिवल्ला बाइकोलर <i>Anguilla bicolor</i>	NA	
3.		ओफिक्टिडे Ophichthidae	पिसोडनोफिस बोरो <i>Pisodonophis boro</i>	NA	
4.	क्लूपिफोर्म्स Clupeiformes	क्लूपिडे Clupeidae	डयेल्ला मलबारिका <i>Dayella malabarica</i>	CR	स्थानिक Endemic
5.	साइप्रिनिफोर्म्स Cypriniformes	साइप्रिनिडे Cyprinidae	आम्ब्लिफारिनोडोन मोला <i>Amblypharyngodon mola</i>	LRIC	स्थानिक Endemic
6.			सल्मोस्टोमा बूपिस <i>Salmostoma boopis</i>	DD	स्थानिक Endemic
7.			बारिलिपस बकरी <i>Barilius bakeri</i>	VU	स्थानिक endemic
8.		बी. गटेन्सिस <i>B. gatensis</i>		NA	
9.		बी. बेन्डेलिसिस <i>B. bendelisis</i>		LRnt	

10.	बी. कानारेन्सिस <i>B. canarensis</i>	DD	स्थानिक Endemic
11.	चेला डाडिबुरजोरी <i>Chela dadyburjori</i>	DD	स्थानिक Endemic
12.	चेला फासिएटा <i>Chela fasciata</i>	NA	
13.	चेला लॉबुका <i>Chela laubuca</i>	DD	
14.	डानियो मलबारिकस <i>Danio malabaricus</i>	NA	स्थानिक Endemic
15.	एसोमस डानरिकस <i>Esomus danricus</i>	LRIc	
16.	गारा गोटाइला स्टीनोरिन्कस <i>Garra gotyla stenorhynchus</i>	EN	स्थानिक Endemic
17.	गारा मक्लेल्लांडी <i>Garra mcclellandi</i>	DD	
18.	गारा मुल्लिया <i>Garra mullya</i>	NA	
19.	गारा सुरेन्द्रनानातानी <i>Garra surendranathani</i>	EN	स्थानिक Endemic
20.	गोनोप्रोक्टोटीरस कुरमुका <i>Gonoproctopterus curmuca</i>	EN	
21.	जी. डबियस <i>G. dubius</i>	EN	
22.	होराडान्डिया आट्टुकोराली <i>Horadandia attukorali</i>	EN	स्थानिक Endemic
23.	रासबोरा डानिकोनियस <i>Rasbora daniconius</i>	LRnt	
24.	सालमोस्टोमा बूपिस <i>Salmostoma boopis</i>	NA	
25.	नियोलिसोचीलस व्यनाडेन्सिस <i>Neolrossocheilus wynaudensis</i>	CR	स्थानिक Endemic
26.	प्यून्टियस ओफिसेफालस <i>Puntius ophicephalus</i>	EN	

27.	पी. बाइमाकुलेटस <i>P. bimaculatus</i>	DD		
28.	पी. डेनिसोनी <i>P. denisonii</i>	EN	स्थानिक Endemic	
29.	पी. फिलमेन्टोसस <i>P. filamentosus</i>	NA		
30.	पी. अरुलियस <i>P. arulius</i>	EN	स्थानिक Endemic	
31.	पी. विटाटस <i>P. vittatus</i>	VU		
32.	पी. जेरडोनी <i>P. jerdoni</i>	EN		
33.	पी. टिक्टो <i>P. ticto</i>	LRnt	स्थानिक Endemic	
34.	पी. आम्फीबियस <i>P. amphibius</i>	NA		
35.	पी. मेलनाम्पिक्स <i>P. melanampyx</i>	LRIC	स्थानिक Endemic	
36.	पी. सराना सबनास्यूटस <i>P. sarana subnasutus</i>	VU	स्थानिक Endemic	
37.	पी. कोला <i>P. chola</i>	VU		
38.	पी. मेलनोस्टिगमा <i>P. melanostigma</i>	EN	स्थानिक Endemic	
39.	पी. कार्नाटिकस <i>P. carnaticus</i>	LRnt	स्थानिक Endemic	
40.	पी. कोन्कोनियस <i>P. conchonius</i>	VU		
41.	ओस्टियोब्रामा बकरी <i>Osteobrama bakeri</i>	EN	स्थानिक Endemic	
42.	ओस्टोचैलिक्तिस नाशी <i>Osteocheilichthys nashi</i>	DD	स्थानिक Endemic	
43.	बालिटोरिडे Balitoridae	भवानिया आस्ट्रालिस <i>Bhavania australis</i>	EN	स्थानिक Endemic

44.		ट्रावन्कोरिया इलोनोटा <i>Travancoria elongata</i>	CR	
45.		शिस्टूरा डेनिसोनी डेनिसोनी <i>Schistura denisoni denisoni</i>	स्थानिक Endemic	
46.		एस. नीलगिरिएन्सिस <i>S. nilgiriensis</i>	स्थानिक Endemic	
47.		एस. सेमियारमाटस <i>S. semiarmatus</i>	स्थानिक Endemic	
48.		लोनिशिस्टूरा स्ट्रियाटा <i>Longischistura striata</i>	स्थानिक Endemic	
49.		मीसोनेमाचीलस ट्रियानुलारिस <i>Mesonemacheilus triangularis</i>	स्थानिक Endemic	
50.		एम. गून्थेरी <i>M. guentheri</i>	स्थानिक Endemic	
51.		नेमाचीलस मोनिलिस <i>Nemacheilus monilis</i>	स्थानिक Endemic	
52.		ओरेनेक्टेस केरालेन्सिस <i>Oreonectes keralensis</i>	स्थानिक Endemic	
53.	होमालोप्टेरिडे Homalopteridae	एकान्तोकोबिटिस मोरेह <i>Acanthocobitis moreh</i>	DD	
54.	कोबिटिडे Cobitidae	लेपिडोसेफालस थेर्मालिस <i>Lepidocephalus thermalis</i>	DD	
55.	सिलूरिफोर्म्स Siluriformes	बाग्रिडे Bagridae	मिस्टस गूलियो <i>Mystus gulio</i>	NA
56.		एम. अरमाटस <i>M. armatus</i>	NA	
57.		एम. ओकुलाटस <i>M. oculatus</i>	NA	
58.		एम. विटाटस <i>M. vittatus</i>	VU	
59.		होराबाग्रस नीग्रिकोल्लारिस <i>Horabagrus nigricollaris</i>	स्थानिक Endemic	
60.		एच. ब्राकिसोमा <i>H. brachysoma</i>	स्थानिक Endemic	

61.		ग्लिप्टोतोराक्स माड्रास्पाटनम <i>Glyptothonax madraspatnam</i>	VU	स्थानिक Endemic
62.		जी. लोनाह <i>G. lonah</i>	LRnt	
63.		ओम्पोक बाइमाकुलाटस <i>Ompok bimaculatus</i>	EN	
64.		बटासियो ट्रावन्कोरिया <i>Batasio travancoria</i>	EN	स्थानिक Endemic
65.		हेटरोपन्यूस्टिडे हेटरोपन्यूस्टस फोसिलिस Heteropneustidae <i>Heteropneustes fossilis</i>	VU	
66.	बेलोनिडे Belonidae	सेनेन्टोडोन कान्सिला <i>Xenentodon canila</i>	VU	
67.	साइप्रिनोडोन्टिफोर्म्स Cyprinodontiformes	साइप्रिनोडोन्टिडे एप्लोचीलस लिनियाटस Cyprinodontidae <i>Aplocheilus lineatus</i>	NA	
68.	पेर्सिफोर्म्स Perciformes	चन्नि चन्निडे Channidae चन्ना स्ट्रियाटा <i>Channa striata</i>	LRIC	
69.		सी. मारुलियस <i>C. marulius</i>	LRIC	
70.	अम्बासिडे Ambassidae	पारम्बासिस तोमासी <i>Parambassis thomassi</i>	VU	
71.	नान्डिडे Nandidae	नन्डस नन्डस <i>Nandus nandus</i>	LRnt	
72.		प्रिस्टोलेपिस मार्जिनेटा <i>Pristolepis marginata</i>	VU	स्थानिक Endemic
73.		पी. फासिएटा <i>P. fasciata</i>	NA	स्थानिक Endemic
74.	सिक्लिडे Cichlidae	एट्रोप्लस माक्युलेटस <i>Etroplus maculates</i>	NA	स्थानिक Endemic
75.		ई. सुराटेन्सिस <i>E. suratensis</i>	NA	स्थानिक Endemic
76.	गोबिडे Gobiidae	ग्लोसोगोबियस गिरिस <i>Glossogobius giuris</i>	LRnt	
77.		एवोस गुटाम <i>Awous gutam</i>	NE	

78.		सिसियोटिरा ग्रीसियस <i>Sicyopterus griseus</i>	NA		
79.	अनाबान्टिडे Anabantidae	अनाबास टेस्टुडिनियस <i>Anabas testudineus</i>	VU		
80.	बेलोन्टिडे Belontidae	माक्रोपोडस कुपानस <i>Macropodus cupanus</i>	NA		
81.	सिनग्नाथिडे Syngnathidae	माइक्रोफिस कुनकालस <i>Microphis cuncalus</i>	NA	स्थानिक Endemic	
82.	मस्टासिम्बेलिडे Mastacembelidae	मस्टसिम्बेलस अरमाटस <i>Mastacembelus armatus</i>	NA		
83.	टेट्राओन्टिफोर्म्स Tetraodontiformes	टेट्राओन्टिडे Tetraodontidae	टेट्राओन ट्रावन्कोरिकस <i>Tetraodon travancoricus</i>	EN	स्थानिक Endemic

CR-Critically endangered, EN- endangered, LRnt- Lower risk, LRlc- Lower risk least concern, VU- vulnerable,  
NA- Not assessed, DD- data deficient

### सारणी : 2 खतरे में पड़ गई जातियों की सूची

Table 2.List of Endangered species in the collection

क्र.सं. Sl.No.	क्रम/Order	कुटुम्ब/Family	जाति/Species	परिरक्षण का स्तर/ Conservation status
1.	क्लूपिफोर्म्स Clupeiformes	क्लूपिडे Clupeidae	डयेल्ला मलबारिका <i>Dayella malabarica</i>	CR
2.	साइप्रिनिफोर्म्स Cypriniformes	साइप्रिनिडे Cyprinidae	गारा गोटाइला स्टीनोरिन्कस <i>Garra gotyla stenorhynchus</i>	EN
3.			गारा सुरेन्द्रानातानी <i>Garra surendranathianii</i>	EN
4.			गोनोप्रोक्टोटीरस कुरमुका <i>Gonoproctopterus curmuca</i>	EN
5.			होराडान्डिया आट्टुकोराली <i>Horadandia attukorali</i>	EN
			<i>G. dubius</i>	EN
6.			नियोलिसोचीलस व्यनाडेन्सिस <i>Neolissocheilus wynnaadensis</i>	CR
7.			प्यून्टियस ओफीसेफालस <i>Puntius ophiocephalus</i>	EN

8.		पी. डेनिसोनी		
		<i>P. denisonii</i>	EN	
9.		पी. औरुलियस		
		<i>P. arulius</i>	EN	
10.		पी. जेरडोनी		
		<i>P. jerdoni</i>	EN	
11.		पी. मेलनोस्टिगमा		
		<i>P. melanostigma</i>	EN	
12.		ओस्टियोब्रामा बकेरी		
		<i>Osteobrama bakeri</i>	EN	
13.	बालिटोरिडे	भवानिया ऑस्ट्रालिस		
	Balitoridae	<i>Bhavania australis</i>	EN	
14.		ट्रावन्कोरिया इलोनोटा		
		<i>Travancoria elongata</i>	CR	
15.		शिस्टूरा डेनिसोनी डेनिसोनी		
		<i>Schistura denisoni denisoni</i>		
16.		एस. नीलगिरिएन्सिस		
		<i>S. nilgiriensis</i>	EN	
17.		नेमाचीलस मोनिलिस		
		<i>Nemacheilus monilis</i>	EN	
18.		ओरियोनेक्टस केरालेन्सिस		
		<i>Oreonectes keralensis</i>	EN	
19.	सिलूरिफोर्म्स	बाग्रिडे	होराबाग्रस नीग्रिकोल्लारिस	
	Siluriformes	Bagridae	<i>Horabagrus nigricollaris</i>	CR
20.		एच. ब्राकिसोमा		
		<i>H. brachysoma</i>	EN	
21.		ओम्पोक बाइमाकुलाटस		
		<i>Ompok bimaculatus</i>	EN	
22.		बटासियो ट्रावन्कोरिया		
		<i>Batasio travancoria</i>	EN	
23.	टेट्राओन्डिफोर्म्स	टेट्राओन्डिडे	टेट्राओन ट्रावन्कोरिकस	
	Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Tetraodon travancoricus</i>	EN

## सारणी : 3 सुभेद्र जाति मछलियों की सूची

Table 3. List of Vulnerable species in the collection

क्र.सं. Sl.No.	क्रम/Order	कुटुम्ब/Family	जाति/Species	परिरक्षण का स्तर/ Conservation status
1.	साइप्रिनिफोर्म्स Cypriniformes	साइप्रिनिडे Cyprinidae	बारिलियस बकेरी <i>Barilius bakeri</i>	VU
2.			प्यून्टियस विट्टाटस <i>Puntius vittatus</i>	VU
3.			पी. सराना सबनासाटस <i>P. sarana subnasutus</i>	VU
4.			पी. कोला <i>P. chola</i>	VU
5.			पी. कोन्कोनियस <i>P. conchonius</i>	VU
6.		बालिटोरिडे Balitoridae	षिस्टूरा सेमियारमाटस <i>Schistura semiarmatus</i>	VU
7.			लोनिषिस्टूरा स्ट्रियाटा <i>Longischistura striata</i>	
8.		बाग्रिडे Bagridae	मिस्टस विट्टाटस <i>Mystus vittatus</i>	VU
9.			ग्लिप्टोतोराक्स माड्रास्पाटनम <i>Glyptothorax madraspatnam</i>	VU
10.		हेटरोप्न्यूस्टिडे Heteropneustidae	हेटरप्न्यूस्टस फोसिल <i>Heteropneustes fossilis</i>	VU
11.		बेलोनिडे Belontidae	सेनेन्टोडोन कान्सिला <i>Xenentodon cancila</i>	VU
12.		अम्बासिडे Ambassidae	पाराम्बासिस तोमासी <i>Parambassis thomassi</i>	VU
13.		नान्डिडे Nandidae	प्रिस्टोलेपिस मार्जिनेटा <i>Pristolepis marginata</i>	VU
14.		आनाबान्डिडे Anabantidae	अनाबास टेस्ट्यूडिनियस <i>Anabas testudineus</i>	VU

## सारणी : 4 स्थानिक मछलियों की सूची

Table 4. List of endemic fishes in the collection

क्र.सं. Sl.No.	क्रम/Order Family	जाति/Species	परिरक्षण का स्तर/ Conservation status	स्थानिकता/ Endemic
1.	क्लूपिफोर्म्स Clupeiformes	क्लूपिडे Clupeidae	डयेल्ला मलबारिकस <i>Dayella malabaricus</i>	CR स्थानिक Endemic
2.	साइप्रिनिफोर्म्स Cypriniformes	साइप्रिनिडे Cyprinidae	आम्प्लिफारिनोडोन मोला <i>Amblypharyngodon mola</i>	LEIc स्थानिक Endemic
3.			साल्मोस्टोमा बूपिस <i>Salmostoma boopis</i>	DD स्थानिक Endemic
4.			बारिलियस बकेरी <i>Barilius bakeri</i>	VU स्थानिक Endemic
5.			बी. कनारेन्सिस <i>B. canarensis</i>	DD स्थानिक Endemic
6.			चेला डाडिबुरजारी <i>Chela dadyburjori</i>	DD स्थानिक Endemic
7.			*दानियो मलबारिकस <i>*Danio malabaricus</i>	NA स्थानिक Endemic
8.			गारा गोटाइला स्टीनोरिन्कस <i>Garra gotyla stenorhynchus</i>	EN स्थानिक Endemic
9.			गारा सुरेन्द्रानातानी <i>Garra surendranathani</i>	EN स्थानिक Endemic
10.			गोनोप्रोक्टोप्टिरस कुरमुका <i>Gonoproctopterus curmuca</i>	EN स्थानिक Endemic
11.			होराडांडिया आट्टुकोराली <i>Horadandia attukorali</i>	EN स्थानिक Endemic
12.			साल्मोस्टोमा बूपिस <i>Salmostoma boopis</i>	NA स्थानिक Endemic
13.			नियोलिसोचीलस वयनाडेन्सिस <i>Neolissocheilus wayanadensis</i>	CR स्थानिक Endemic
14.			पी. डेनिसोनी <i>P. denisonii</i>	EN स्थानिक Endemic
15.			पी. अरुलियस <i>P. aruliyas</i>	स्थानिक

	<i>P. arulius</i>	EN	Endemic
16.	पी. जेर्डोनी		स्थानिक
	<i>P. jerdoni</i>	EN	Endemic
17.	पी. टिक्टो		स्थानिक
	<i>P. ticto</i>	LRnt	Endemic
18.	*पी. मेलनाम्पिक्स		स्थानिक
	* <i>P. melanampyx</i>	LRIc	Endemic
19.	*पी. सराना सबनासूटस		स्थानिक
	* <i>P. sarana subnasutus</i>	VU	Endemic
20.	पी. मेलनोस्टिग्मा		स्थानिक
	<i>P. melanostigma</i>	EN	Endemic
21.	पी. कर्नाटिक्स		स्थानिक
	<i>P. carnaticus</i>	LRnt	Endemic
22.	ओस्टियोब्रामा बकरी		स्थानिक
	<i>Osteobrama bakeri</i>	EN	Endemic
23.	ओस्टियोचेलिक्तिस नाशी		स्थानिक
	<i>Osteocheilichthys nashi</i>	DD	Endemic
24.	बालिटोरिडे	भवानिया ऑस्ट्रालिस	स्थानिक
	Balitoridae	<i>Bhavania australis</i>	Endemic
25.	ट्रावन्कोरिया इलॉगेटा		स्थानिक
	<i>Travancoria elongata</i>	CR	Endemic
26.	शिस्टुरा डेनिसोनी डोनिसोनी		स्थानिक
	<i>Schistura denisoni denisoni</i>		Endemic
27.	एस. नीलगिरिएन्सिस		स्थानिक
	<i>S. nilgiriensis</i>	EN	Endemic
28.	एस. समियारमाटस		स्थानिक
	* <i>S. semiarmatus</i>	VU	Endemic
29.	*लांगिष्टुरा स्ट्रयाटा		स्थानिक
	<i>Longischistura sriata</i>		Endemic
30.	मीसोनेमाचीलस ट्रियांगुलरिस		स्थानिक
	<i>Mesonemacheilus triangularis</i>	LRnt	Endemic
31.	एम. गून्थेरी		स्थानिक
	<i>M. guentheri</i>	LRIc	Endemic
32.	नेमाचीलस मोनिलिस		स्थानिक
	<i>Nemacheilus monilis</i>	EN	Endemic

33.			ओरियोनेक्टस केरलेन्सिस <i>Oreonectes keralensis</i>	EN	स्थानिक Endemic
34.	सिलूरिफोर्म्स Siluriformes	बाग्रिडे Bagridae	होराबाग्रस नीग्रिकोल्लारिस <i>Horabagrus nigricollaris</i>	CR	स्थानिक Endemic
35.			एच. ब्राकिसोमा <i>H. brachysoma</i>	EN	स्थानिक Endemic
36.			ग्लिप्टोतोराक्स माड्रास्पाटनम <i>Glyptothorax madraspatnam</i>	VU	स्थानिक Endemic
37.			बटासियो ट्रावन्कोरिया <i>Batasio travancoria</i>	EN	स्थानिक Endemic
38.	पेर्सिफोर्म्स Perciformes	नान्डिडे Nandidae	*प्रिस्टोलेपिस मार्जिनेटा <i>*Pristolepis marginata</i>	VU	स्थानिक Endemic
39.			पी. फासिएटा <i>P. fasciata</i>	NA	स्थानिक Endemic
40.		सिक्किलडे Cichlidae	एट्रोप्लस माक्युलेटस <i>Etroplus maculates</i>	NA	स्थानिक Endemic
41.			ई सुराटेन्सिस <i>E.suratensis</i>	NA	स्थानिक Endemic
42.		सिनग्नाथिडे Syngnathidae	माइक्रोफिस कन्कालस <i>Microphis cuncalus</i>	NA	स्थानिक Endemic
43.	टेट्राओन्टिफोर्म्स Tetraodontiformes	टेट्राओन्टिडे Tetraodontidae	टेट्राओन ट्रावनकोरिक्स <i>Tetraodon travancoricus</i>	EN	स्थानिक Endemic

\* प्रग्रहण प्रजनन प्रौद्योगिकी विकसित मछली जातियाँ

\* species for which captive breeding technology is developed.

### निष्कर्ष

भारत के पश्चिम घाटों की देशज अलंकार मछलियों पर किए गए वर्तमान अध्ययन से यह साबित हुआ है कि हमारी नदियों और नदीधाराओं में और अधिक मछली जातियाँ मौजूद हैं, जिन्हें अलंकार मछलियों के रूप में उपयुक्त किया जा

सकता है। निर्यात बाज़ार में नियमित पूर्ति को लक्ष्य करके निश्चित रूप से खतरे में पड़ी और खतरे में पड़ी मछलियों के उत्पादन के लिए प्रग्रहण प्रजनन प्रौद्योगिकी विकसित की जानी चाहिए। नई मछली किस्मों को चुनकर प्रजनन करके उनके पालन पर अनुसंधान करने की शक्यता भी यहाँ व्यक्त हो जाती है।

